


## तीन सौ बोरा नकली सीमेंट बरामद, एक गिरफ्तार, सीमेंट स्टोर में हो रही थी बिक्री



**संवाद सूत्र, बाराचट्टी:** थाना क्षेत्र के सरमां पंचायत के बेलहरिया गांव में मनोज सीमेंट स्टोर से तीन सौ पैकेट नकली श्री जंगरोधक सीमेंट को बाराचट्टी पुलिस ने बरामद किया है। टार्क डिडेक्टिव कम्पनी मुंबई के जांच अधिकारी महेश अर्जुन आदन ने गया पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से बीते शुक्रवार को बेलहरिया में नकली सिमेंट को बरामद किया है।

पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रामलखन पंडित ने बताया कि नकली सीमेंट को जप्त कर लिया गया है। मौके पर से बिक्रेता मनोज कुमार को सीमेंट बिक्री करते गिरफ्तार किया गया है। मुम्बई से पहुंचे जांच अधिकारी महेश अर्जुन आदन पूछताछ कर मनोज को नाजमद बदमाश बनाया है। जिसे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। थानाध्यक्ष श्री पंडित ने बताया कि जांच अधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की कार्यवाही कि गई है। जानकारी हो कि बाराचट्टी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों सीमेंट-छड की दुकान वैट नंबर लेकर संचालित किए गए है।

अधिकांश लोगों के द्वारा यह चर्चा किया जाता है कि इन दुकानों में सीमेंट दो नंबर का बिक्री किया जाता है प्लास्टर या ढलाई करते ही तुरंत गिरने लगता है। परंतु इसकी शिकायत करने का कोई नंबर या स्थान नहीं होने के कारण लोग इस बात की जानकारी कहीं नहीं कर पाते हैं। यहां यह बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन प्रखंड क्षेत्र में लाभुकों को होने के बाद प्रथम किस्त की राशि का भुगतान होने के बाद।

सीमेंट, छड़ तथा ईट का डिमांड बाजार में बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि श्री जंग रोधक सिमेंट के अलावे अन्य सीमेंट का नकली सीमेंट बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के दुकानों में बिक्री किए जाने की संभावना है इसलिए अन्य दुकानों की जांच करने की आवश्यकता है।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/gaya-three-hundred-sacks-of-fake-cement-recovered-one-arrested-was-being-sold-in-cement-store-22675299.html>